



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उप-खण्ड (iii)

PART II—Section—3 Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 2]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2001/माघ 3, 1922

No. 2]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2001/MAGHA 3, 1922

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2001

आ.अ. 2(अ).— निर्वाचन प्रतीक {आरक्षण और आवंटन}

आदेश, 1968 के पैरा, 17 के उप-पैरा {2} के अनुतरण में, भारत निर्वाचन आयोग
स्तम्भद्वारा समय-समय पर यथा-संगोषित अपनी अधिसूचना सं० 56/2000/न्यायिक-111,
तारीख 30 जुलाई 1999 में निम्नलिखित संगोषित और करता है, अर्थात्:-

1 उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी I {राष्ट्रीय दलों} में-

{i} जनता दल, जनता दल {सेक्यूलर} और जनता दल {यूनाइटेड} से
सम्बन्धित क्रम संख्याओं, क्रमशः 6, 6क और 6ख को प्रविष्टियाँ
हटाई जाँएंगी ,

{ii} क्रम सं० "7" को "6" के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ।

II उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी II {राज्यीय दलों} में -

{i} स्तम्भ 2 के नीचे, "अस्माचल प्रदेश" प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ 3, 4 और
5 के नीचे "2-जनता पार्टी" से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटाई जाँएंगी ;

{ii} स्तम्भ 2 के नीचे, "बिहार" प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ
स्तम्भ 3, 4 और 5 के नीचे क्रमशः अन्तःस्थापित की जाँएंगी ;

"4. जनता दल {यूनाइटेड} तीर 7, जन्तर मन्तर रोड,
नई दिल्ली"

{iii} क्रम सं० 9 से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ
स्तम्भ 1, 2, 3, 4 और 5 के नीचे क्रमशः अन्तःस्थापित की जाँएंगी ;

*9क. कर्नाटक	1. जनता दल §सेक्यूलर§	ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान	5. सफ्दरजंग लेन, नई दिल्ली
	2. जनता दल §यूनाइटेड§	तोर	7. जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

§iv§ स्तम्भ 2 के नीचे, "13. मिजोरम" प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ-3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों, "2. मिजो नेशनल फ्रंट §नेशनलिस्ट§" के स्थान पर "जोराम नेशनलिस्ट पार्टी" प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

III उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 111 §रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों§ में-

§1§ क्रम संख्या 683 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् स्तम्भ 1, 2, और 3 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएंगी:-

*684	पुथिया नोधि काची	6, नार्थ बोग रोड, टी-नगर, चेन्नई-600017 तमिलनाडु ।
*685.	शिक्षित बेरोजगार सेना	कम्मू कत्रा सदरगंज, शबनम टेलर मरयाहून, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
*686.	पुराची भारतम्	सं0 54, नेशनल हाईवे पूनामल्ला, चेन्नई-56, तमिलनाडु ।
*687.	उद्देष्ट्यालर पोथु नालाकाची	तिस्पाटटूर, वेल्थोर जिला, तमिलनाडु-635601
*688.	मिनिस्टीरियल सिस्टम रबोलिशन पार्टी	25, बरटोल्ता स्ट्रीट, कलकत्ता ।
689.	जनता पार्टी	ए-77, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली ।
690.	त्रिलोक शक्ति कांग्रेस भारत	49-डी, त्रिवेणी नगर, नैनी, उद्योग नगर, इलाहाबाद
691.	मनुवादी पार्टी	201, बिरहाना पाडेगंज, सुभाष मार्ग, लखनऊ-226004 उत्तर प्रदेश
692.	यूनाइटेड मोमिन कान्ग्रेस	47/26, वारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001. उत्तर प्रदेश

693 पुधुचेरी मक्कल कांग्रेस	76, काल्वे सुम्बरारी चेटिट्यार स्ट्रीट, पाडिचेरी-605001
694 राष्ट्रीय कोमी एकता पार्टी	लिम्डा लेन, मकरानी पाडा, जामनगर-361001, गुजरात

- (ii) क्रम सं० 416 के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियां, "6, कुष्णास्वामी एयेन्नु, लुज कार्नर, माइलापोर, चेन्नई-600004, तमिलनाडु" प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी।
- (iii) क्रम सं० 533 के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियां, "सूरज का पुर्वा, अतरारूरल, पो० अतररी, जिला बादां, उत्तर प्रदेश", प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी।
- (iv) क्रम सं० 604 के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियां, फ्लैट सं० 203, बिल्डिंग नं० 6-4-323ए, विवेक वंशी रेजीडेन्सी, मेकाला मंडी रोड, भोलक पुर, सिकन्दराबाद-500080, आन्ध्र प्रदेश" प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी।

- (v) क्रम सं० 501 के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियां, "प्राउटिस्ट सर्व समाज", प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी,

- (vi) निम्नलिखित दलों से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ हटा दी जाएंगी :-

1. अभिनव भारत संघ, 12. अखिल भारतीय दल, 16. अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष दल,
21. अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी, 25. अखिल भारतीय जनहित जागृत पार्टी, 30. अखिल भारतीय महिला दल, 34. अखिल भारतीय मराठा महासंघ, 36. अखिल भारतीय राजार्य सभा, 38. अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (वी०एस० अतुल), 46. अखिल भारतीय भारत देशम पार्टी, दिल्ली, 51. ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स फेडरेशन, 56. ऑल इंडिया जस्टिस पार्टी, 57. ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा, 58. ऑल इंडिया लेबर वेलफेयर पार्टी, 64. ऑल इंडिया नेशनल यूथ पार्टी, 65. ऑल इंडिया नेताजी कांग्रेस, 67. ऑल इंडिया प्रवासी दल, 72. ऑल इंडिया उर्दू मोर्चा, 73. ऑल इंडिया वक्कालर मुन्नेत्र कलागम,
87. अण्डमान पीपुल्स पार्टी, 97. असम जातीय परिषद्, 108. बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर)
110. भारत बचाओ पार्टी ऑफ इंडिया, 113. भारत का साम्यवादी दल (मार्क्सिस्ट लेनिनवादी),
115. भारत शक्ति दल, 117. भारत निरुद्योग पार्टी, 121. भारतीय लोक पंचायत, 122. भारतीय राष्ट्रवादी दल, 123. भारतीय आदर्श पार्टी, 126. भारतीय आज़ाद पार्टी, 130. भारतीय धूनी पार्टी, 131. भारतीय एकता पार्टी, 132. भारतीय गरीब पार्टी, 139. भारतीय जन शक्ति पार्टी,
144. भारतीय क्रांति सेना, 147. भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्र जन परिषद्, 148. भारतीय कृषि उद्योग संघ, 162. भारतीय राष्ट्रीय एकता दल, 163. भारतीय राष्ट्रीय जन जागरण कांग्रेस पार्टी,
168. भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, 176. भारतीय संगठित पार्टी (एस०), 192. भारतीय प्रगतिशील पार्टी, 199. बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी (प्रेम सिंह ब्रह्मा गुप्त), 205. चाणक्य पार्टी, 208. छत्तीसगढ़ राज्य पार्टी, 210. छोटानागपुर संथाल परगना जन सेवा दल, 216. कोऑपरेटर्स फ्रंट ऑफ असम, 220. दिल्ली पूर्वांचल पार्टी, 229. डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र), 230. डेंजोंग पीपुल्स चोग्पा, 231. देसीया कर्षक पार्टी,

234. देश पंजाब न्याय फ्रंट, 238. दूरदर्शी पार्टी, 241. एकता पार्टी, 247. गणतांत्रिक गण सम्मिलन, 261. ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया, 265. गुर्जर संघ, 266. हरियाणा भूमिहीन पार्टी, 267. हरियाणा छात्र युवा मोर्चा, 268. हरियाणा डेमोक्रेटिक कांग्रेस, 273. हिन्द देशम, 276. हिन्द नेशनल पार्टी, 279. हिन्दु प्रजा पार्टी, 286. हिन्दुस्तानी समाजवादी पीपुल्स पार्टी, 287. हुल झारखंड पार्टी, 288. ह्यूमन राइट्स पार्टी ऑफ इण्डिया, 290. इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी, 291. इंडियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी, 292. इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, 293. इंडियन फार्मर्स एण्ड वर्कर्स पार्टी, 294. इंडियन लेबर कांग्रेस, 297. इंडियन नेशनल कांग्रेस (ओ)(एंटी मर्जर ग्रुप), 302. इंडियन नेशनल सेक्युलर फ्रंट, 304. इंडियन पीपुल्स फ्रंट, 308. इन्टरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, 309. इस्लामिक पार्टी ऑफ इंडिया, 312. जय नौजवान जय मजदूर किसान पार्टी, 320. जन एकता मोर्चा, 322. जन परिषद्, 324. जन सेवक संगठन, 331. जनता दल (ए0), 332. जनता दल (डी0) राजस्थान, 333. जनता दल (प्रगतिशील), 334. जनता क्रांति कांग्रेस, 339. जातीय क्रांति मंच, 340. जवान किसान मजदूर पार्टी, 341. झारखंड लिबरेशन फ्रंट, 347. कल्याण मोर्चा, 354. कन्नड़ देश पार्टी, 355. कानपुर ग्रामीण संगठन, 357. कर्नाटक गण परिषद्, 359. कर्नाटक प्रगतिरंगा, 364. किसान देशम, 367. किसान मजदूर गांव राज, 373. क्रांति सभा, 376. क्रांतिकारी समाजवादी मंच, 388. लोक हित मोर्चा, 390. लोक पार्टी, 391. लोक सेवा परिषद्, 393. लोक स्वराज आंदोलन, 394. लोक स्वराज्य अभियान, 395. लोक स्वराज्य संघ, 402. एम0जी0आर0 मक्कल मुन्नेत्र कड़गम, 404. एम0जी0आर0 मुन्नानी, 410. महाराष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी, 422. मणिपुर हिल पीपुल्स काउंसिल, 423. मणिपुर पीपुल्स काउंसिल, 431. मेघावी कांग्रेस (जे), 432. मेघालय प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी, 433. मिजो नेशनल फ्रंट (डेमोक्रेट्स)-चावनजुआला, 434. मिजोरम जनता दल, 460. नवभारत कांग्रेस पार्टी (आर), 463. नेताजी सुभाष बिप्लबी परिषद्, 471. उड़ीसा खान्दायत क्षेत्रीय कृषक गण परिषद्, 473. उड़ीसा विकास परिषद्, 485. पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, 486. पीपुल्स पार्टी ऑफ प्रान्ट्स, 489. पिछड़ा वर्ग समाज पार्टी, 493. पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस, 497. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (केरल), 498. प्रताप शिव सेना, 512. कौमी मोर्चा, 526. राष्ट्रीय छात्र किसान मजदूर पार्टी, 529. राष्ट्रीय हिन्दु मोर्चा, 534. राष्ट्रीय जनता मोर्चा पार्टी, 543. राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी (समाजवादी), 544. राष्ट्रीय मजदूर पक्ष (गुजरात), 547. राष्ट्रीय प्रगतिशील मोर्चा, 553. राष्ट्रीय समदर्शी पार्टी, 558. राष्ट्रीय विकास पार्टी, 562. राष्ट्रीय प्रजा परिषद्, 563. रिअलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 574. राइजिंग सन पार्टी, 587. समाजवादी जन शक्ति मोर्चा, 590. सम्पूर्ण क्रांति दल, 592. सनातन समता संगठन, 593. संयुक्त लोक परिषद्, 600. सर्वजाति जनता पंचायत, 607. सीनियर सीटिजन्स नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, 608. शहीद फेरुमान अकाली दल, 609. शिरोमणि अकाली दल (मास्टर तारा सिंह), 610. शिरोमणि अकाली दल (एस), 611. शिरोमणि जगत अकाली दल, 620. सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, 623. सोशलिस्ट पार्टी (रमाकांत पांडे), 625. शोषण मुक्ति मोर्चा, 627. स्वराज्य पार्टी, 631. तमिल नाडु हिन्दु वल्लालर यूथ कड़गम, 632. तमिल नाडु कामराज मक्कल इयाक्कम, 636. तमिल नाडु पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन, 650. द तमिल नाडु स्टेट इंडियन यूनियन

मुस्लिम लीग, 659. यूनाइटेड रिपब्लिक पार्टी, 664. उत्तर प्रदेश विकास मंच, 666. उत्तराखंड पार्टी, 673. विशाल भारत पार्टी, 674. विशाल हरियाणा पार्टी, 676. वोक्कलीगारा परिषद्, 677. वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी (एस0एन0जे0मिर्जा), 678. वेस्ट उड़ीसा पीपुल्स फ्रंट, 679. वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, 681. युवा देशम पार्टी ।

[सं. 56/2001(1)/न्यायिक-III]

आदेश से,
के.जे.राव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2001

O.N. 2 (E).— In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No.56/2000/JUD.III, dated 30th July, 1999, as amended from time to time, namely :-

- I. In Table I (National parties), appended to the said Notification -
 - (i) the entries at serial number 6, 6A and 6B, relating to Janata Dal, Janata Dal (Secular) and Janata Dal (United) respectively shall be deleted;
 - (ii) serial number "7" shall be renumbered as "6"
- II. In Table II (State parties), appended to the said Notification -
 - (i) against the entry "Arunachal Pradesh" under column 2, the entries relating to "2. Janata Party", under columns 3, 4 and 5 shall be deleted;

- (ii) against the entry "Bihar" under column 2, the following entries shall be inserted under columns 3, 4 and 5 respectively;

"4. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi.";
-------------------------	-------	-------------------------------------

- (iii) after the entries relating to serial number 9, the following entries shall be inserted under columns 1, 2, 3, 4 and 5 respectively;

"9A. Karnataka	1. Janata Dal (Secular)	Kisan Driving Tractor	5, Safdarjung Lane, New Delhi.
	2. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi.";

- (iv) against the entry "13. Mizoram" under column 2, the existing entries "2. Mizo National Front (Nationalist)" under column 3, shall be substituted by the entries "Zoram Nationalist Party".

III. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification -

- (i) After the existing entries at serial number 683, the following entries shall be inserted under column 1, 2 and 3 respectively:-

"684	Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
685.	Shikshit Berozgar Sena	Kammu Katra Sadarganj, Shabnam Tailor Maryahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.

686.	Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.
687.	Uzhaippalar Podhu Nalakatchi	Tirupattur, Vellore District, Tamil Nadu-635601.
688.	Ministerial System Abolition Party	25, Burtolla Street, Calcutta.
689.	Janata Party	A-77, Nizamuddin East, New Delhi.
690.	Trilok Shakti Congress Bharat	49-D, Triveni Nagar, Naini, Udyog Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.
691.	Manuvadi Party	201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg, Lucnow-226004, Uttar Pradesh.
692.	United Momin Conference	47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
693.	Pudhucherry Makkal Congress	76, Calve Subbrary Chettiar Street, Pondicherry-605001.
694.	Rashtriya Komi Ekta Party	Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat."

- (ii) against serial number 416, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "6, Krishnaswamy Avenue, Luz Corner, Mylapore, Chennai-600004, Tamil Nadu";
- (iii) against serial number 533, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "Suraj Ka - Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh";
- (iv) against serial number 604, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries "Flat No.203, Bldg. No. 6-4-

323/A, Vivek Vanshi Residency, Mekala Mandi Road, Bholak Pur,
Secunderabad-500080, Andhra Pradesh";

(v) against serial number 501, the existing entries under column 2,
shall be substituted by the entries "Proutist Sarva Samaj";

(vi) the entries relating to the following parties shall be deleted:-

1. Abhinav Bharat Sangh, 12. Akhil Bharatiya Dal, 16. Akhil
Bharatiya Dharmnirpeksh Dal, 21. Akhil Bharatiya Hindustani
Krantikari Samajwadi Party, 25. Akhil Bharatiya Janhit Jagrit
Party, 30. Akhil Bharatiya Mahila Dal, 34. Akhil Bharatiya
Maratha Mahasangh, 36. Akhil Bharatiya Rajrya Sabha, 38. Akhil
Bharatiya Ram Rajya Parishad (V.S. Atul), 46. Akhil Bhartiya
Bharat Desham Party, Delhi, 51. All India Democratic People
Federation, 56. All India Justice Party, 57. All India Kisan
Mazdoor Sabha, 58. All India Labour Welfare Party, 64. All India
National Youth Party, 65. All India Nethaji Congress, 67. All India
Pravasi Dal, 72. All India Urdu Morcha, 73. All India Vakkalar
Munnetra Kalagam, 87 Andaman People's Party, 97 Asom Jatiya
Parishad, 108. Bahunjan Samaj Party (Raj Bahadur), 110. Bharat
Bachao Party of India, 113. Bharat Ka Samyawadi Dal (Marxist
Leninwadi), 115. Bharat Mukti Dal, 117. Bharat Nirudyog Party,
121. Bharatiya Lok Panchayat, 122. Bharatiya Rashtrawadi Dal,
123. Bharatiya Adarsh Party, 126. Bharatiya Azad Party, 130.
Bharatiya Dhuni Party, 131. Bharatiya Ekta Party, 132. Bharatiya
Gareeb Party, 139. Bharatiya Jan Shakti Party, 144. Bharatiya

Krantikari Sangha, 147 Bharatiya Krantikari Swatantra Jan Parishad, 148 Bharatiya Krishi Udyog Sangh, 162 Bharatiya kashtriya Ekta Dal, 163 Bharatiya Rashtriya Jan Jagran Congress Party 168 Bharatiya Rashtriya Party, 176 Bharatiya Sanghatit Party(S), 192 Bharatiya Pragatisheel Party, 199 Bodoland People's Party (Premsing Brahma Group), 205 Chanakya Party, 208 Chhattisgarh Rajya Party, 210 Chotanagpur Santhal Pargana Jan Seva Dal, 216 Cooperator's Front of Assam, 220 Delhi Poorvanchal Party, 229 Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra), 230 Denzong People's Chogpa, 231 Deseeya Karshaka Party, 234 Desh Punjab Niyaye Front, 238 Doordarshi Party, 241 Ekta Party, 247 Gantantrik Gana Sammilan, 261 Green Party of India, 265 Gurjar Sangh, 266 Haryana Bhoomiheen Party, 267 Haryana Chhatra Yuva Morcha, 268 Haryana Democratic Congress, 273 Hind Desham, 276 Hind National Party 279 Hindu Praja Party, 286 Hindustani Samajwadi Party, 287 Hul Jharkhand Party, 288 Human Rights Party of India, 290 Indian Democratic Party, 291 Indian Democratic Peoples Party, 292. Indian Democratic Socialist Party, 293 Indian Farmers and Workers Party, 294 Indian Labour Congress, 297 Indian National Congress (O) (Anti-Merger Group), 302 Indian National Students Front, 304 Indian People's Front, 308 International Communist Party, 309 Islamic Party of India, 312 Jai Naujwan Karm Mazdoor Kissan Party, 320 Jan Ekta Morcha, 322 Jan Parishad, 324 Jan

Sevek Sanghathan, 331 Janta Dal (A), 332. Janata Dal (D)
Rajasthan, 333. Janata Dal (Pragatisheel), 334. Janata Kranti
Congress, 339 Jatiya Kranti Manch, 340 Jawan Kisan Mazdur
Party, 341. Jharkhand Liberation Front, 347 Kalyan Morcha, 354
Kannada Desha Party, 355. Kanpur Grameen Sansthan, 357
Karnataka Gana Parishath, 359 Karnataka Pragatiranga, 364.
Kisan Desham, 367 Kisan Mazdoor Gaon Raj, 373 Kranti Sabha,
376 Krantikari Samajwadi Manch, 388. Lok Hit Morcha, 390. Lok
Party, 391 Lok Seva Parishad, 393. Lok Swaraj Andolan, 394.
Lok Swarajya Abhiyan, 395 Lok Swarajya Sangh, 402 M.G.R
Makkal Munnetra Kazhagam, 404. M.G.R. Munnai, 410
Maharashtra Republican Party, 422. Manipur Hill People's
Council, 423 Manipur People's Council, 431 Maydhaavi
Congress (J), 432. Meghalaya Progressive Peoples Party, 433
Mizo National Front (Democrats) - Chawanzuala, 434 Mizoram
Janata Dal, 460 Navabharath Congress Party (R), 463 Netaji
Subhas Biplabi Parishad, 471 Orissa Khandayat Khetriya Krusak
Gana Parishad, 473 Orissa Vikash Parishad, 485. People's Party of
India, 486. People's Party of Prants, 489. Pichhadavarg Samaj
Party, 493 Poorvanchal Rashtriya Congress, 497. Praja Socialist
Party (Kerala), 498. Pratap Shiv Sena, 512. Quami Morcha, 526.
Rashtriya Chhatra Kisan Mazdoor Party, 529. Rashtriya Hindu
Morcha, 534. Rashtriya Janata Morcha Party, 543. Rashtriya
Mazdoor Ekta Party (Samajwadi), 544. Rashtriya Mazdoor Paksha

(Gujarat), 547 Rashtriya Pragatisheel Morcha, 553 Rashtriya Samdarshi Party, 558 Rashtriya Vikas Party, 562 Rashtreeya Praja Parishat, 563 Realist Party of India, 574 Rising Sun Party, 587 Samajwadi Jan Shakti Morcha, 590 Sampurna Kranti Dal, 592 Sanatan Samata Sanghatan, 593 Sanjukta Loka Parishad, 600 Sarvjati Janata Panchayat, 607 Senior Citizens National Party of India, 608 Shaheed Pheruman Akali Dal, 609 Shiromani Akali Dal (Master Tara Singh), 610 Shiromani Akali Dal (S), 611 Shiromani Jagat Akali Dal, 620 Socialist Democratic Party, 623 Socialist Party (Ramakant Pandey), 625 Soshan Mukti Morcha, 627 Swarajya Party, 631 Tamil Nadu Hindu Vallalar Youth Kazhagam, 632 Tamil Nadu Kamaraj Makkal Iyakkam, 636 Tamil Nadu People's Welfare Association, 650 The Tamil Nadu State Indian Union Muslim League, 659 United Republican Party, 664 Uttar Pradesh Vikas Manch, 666 Uttarakhand Party, 673 Vishal Bharat Party, 674 Vishal Haryana Party, 676 Vokkaligara Parishat, 677 West Bengal Socialist Party (S N J Mirza), 678 West Orissa Peoples Front, 679 Workers Party of India, 681 Yuva Desham Party

[No 56/2001(1)/JUD III]

By Order,
K J RAO. Secy

